

सुझाव

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि Show Cause पत्रों में आपको स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि इस सेमेस्टर में क्या गलत हुआ, कैसे उससे आपकी पढाई पर असर पड़ा तथा ऐसी स्थिति का दोबारा उत्पन्न होना टालने के लिये आप क्या बदलाव (यदि संबंधित हो तो) लायेंगे।
- RMIT के सभी आवेदनों की तरह, कागजात वाले प्रमाण, आप जो कह रहे हैं वह दिखाने के लिये तथियां तथा ईमेल्स प्रदान करें।
- क्या यह प्रोग्राम आपके लिये सही है अथवा अगले सेमेस्टर में आगे कन्टीन्यू करने की बजाय अनुपस्थिति की अनुमति आपके लिये बेहतर विकल्प होगा? यदि नहीं तो, वदियार्थी प्रगत किमेट्री (स्टूडेंट प्रोग्रेस कमेटी) को यह बता दें कि आप अनुपस्थिति की अनुमति अथवा किसी दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर लेना पसंद करेंगे।

तथि
आपका नाम
आपका वदियार्थी नंबर
आपका संपर्क विवरण

प्रिय वदियार्थी प्रगत किमेट्री,

में आपको यह पत्र मुझे मलि एक पत्र के बारे में लिख रहा हूँ जिसमें संकेत दिया गया है कि, मैं संकट की स्थिति में रखा गया हूँ और उसके अतरिकित, मैंने इस सेमेस्टर में अस्वीकार्य शैक्षणिक प्रगत की है। मैं Show Cause का यह पत्र उन परस्थितियों को समझाने के लिये लिख रहा हूँ जिनके कारण वह परणाम आया साथ ही मैं यह भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने (यहाँ कोर्स/प्रोग्राम का नाम लिखें) को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाना चाहता हूँ।

पछिले सेमेस्टर के दौरान (यह भाग लिखने में सहायता के लिये नीचे दिये गये प्रश्नों को काम में लें)

जो हुआ उस संदर्भ में – नीचे दिये गये प्रश्नों पर विचार करें

- क्या गलत हुआ? जो गलत हुआ उसका असल में कारण क्या था?
- क्या आपने कमाई देने वाला काम बहुत ज्यादा घंटों तक किया था?
- क्या युनिवर्सिटी में यह आपका पहला साल है, क्या आपको यह सारा अनुभव बहुत जबरदस्त (overwhelming) लगा? क्या आपको अकेलापन या डिप्रैस्ड महसूस हुआ था? क्या आपको उन सेवाओं की जानकारी नहीं थी जो आपकी सहायता कर सकती थीं?
- क्या आप उन सेवाओं के बारे में जानते हैं जो आपको अब सपोर्ट/सहायता दे सकती हैं?
- क्या आपको (या आपके किसी नजदीकी को) हुई किसी बीमारी के कारण आपके अध्ययन की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ा? क्या आपके पास, जो गलत हुआ उसका कोई प्रमाण है? जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टर/काउंसलर के पत्र?
- क्या उस समय कोई तनावपूर्ण स्थिति थी जिसका आप सामना कर रहे थे? एक रश्ते का टूटना (खत्म हो जाना)?
- वे परस्थितियां क्या शैक्षणिक थीं या व्यक्तिगत? (बातों के बारे में बताना तभी उपयोगी होता है जब आप यह भी बता सकें कि कैसे उस समस्या का हल हुआ/हल हो रहा है और वो आगे भविष्य में आपको प्रभावित नहीं करेगी)।
- यदि नौकरी के कारण समस्या हुई तो, कमाई देने वाली नौकरी अथवा अन्य बाह्य कमिटमेंट्स पर बतियाये घंटों की तुलना में आपने कितने घंटे अध्ययन में बतियाये तथा क्या आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपने अपने काम के घंटे कम कर दिये हैं?

इनमें से किसी भी एक बात का आपकी सफलतापूर्वक अध्ययन करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा? महत्वपूर्ण: आप यह दिखाना चाह रहे हैं कि आपमें अपनी पढाई सफलतापूर्वक पूरी करने की क्षमता व योग्यता है, लेकिन ऐसा करने में आपके नयितरण से बाहर की चीजों (अथवा ऐसी चीजें जिन्हें आपने अब बदल दिया है) का सीधा प्रभाव पड़ा

आपने अपनी ग्रेड्स में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाहियां कीं?

- पूर्व में जो हुआ उसके समाधान के प्रयास के लिये आपने अब तक क्या किया? क्या आपने सहायता, सहयोग या काउंसलिंग लेने की कोशिश की एवम्/अथवा क्या आपने सहायता के लिये अपने परिवार या मत्तियों से बात की?
- आपने अपने Academic Performance Improvement Plan के कौनसे सन्दर्भ तथा सफारिशें काम में लिये हैं?

आपकी इस सैमेस्टर में क्या करने या बदलने की योजना है?

- आप अपनी परस्थितियों में सुधार करने के लिये क्या करते आ रहे/कर रहे हैं?
- क्या वे परस्थितियाँ आगे भी बनी रहेंगी? यदि हाँ तो, उनसे आपके अध्ययन पर जो असर पड़ सकता है उसे आप कैसे कम करने का ईरादा रखते हैं?
- वापस सामान्य स्थिति में आने के लिये आपके लघु तथा दीर्घकालीन प्लान्स क्या हैं?
- यदि आपको अपने प्रोग्राम में बने रहने की अनुमति मिली जाती है तो आप अपने अध्ययन के प्रति अलग दृष्टिकोण कैसे अपनायेंगे? सफलतापूर्वक अध्ययन के लिये आपकी क्या योजना है?

UAC द्वारा, आपको अपने प्रोग्राम में बने रहने की अनुमति मिलने की स्थिति में आपके अध्ययन के अगले शैक्षणिक पीरियड में आपकी सफलता की संभावनाओं पर विचार किया जायेगा। क्या आप अपने प्रोग्राम की समाप्ति के निकट हैं? इस बात पर ध्यान दें कि आपका बहुष्करण क्यों अनुचित तथा अतिशय (excessive) है। उन परस्थितियों को, वशिष्ट वषियों में अपने फेल होने से जोड़ने की कोशिश करें तथा जो चीजें आपने बदली हैं या जो आप अलग तरीके से करेंगे, या पहले से कर रहे हैं, उनसे कैसे आप स्वयं को अपने अगले प्रयास में सफल होता देखते हैं।

Show Cause के मेरे पत्र को सपोर्ट करने के लिये, कृपया, संलग्न किये गये नमिनलखिति कागजाती प्रमाण प्राप्त करें; उन प्रमाणों की सूची दें जो आपने शामिल किये हैं (इसमें हो सकता है: एक मैडिकल रपोर्ट, एक पुलिस रपोर्ट, एक काउंसलर का वक्तव्य, एक वैधानिक घोषणा, किसी निकट रश्तेदार की मृत्यु का सर्टिफिकेट, अपने Academic Improvement Plan के हस्से के रुप में आपने जनि सपोर्ट सेवाओं में उपस्थिति होने की सहमति दी थी उनमें उपस्थिति होने का प्रमाण, मकान मालकों या रोजगारदाताओं से मलि पत्र, और अधिक उदाहरण सप्लीमेंट्री RUSU हैडआउट; Examples of Documentary Evidence में मलि सकते हैं)।

मेरा विश्वास है कि उपरोक्त पत्र उन असाधारण अप्रत्याशति गंभीर परस्थितियों का संकेत देता है जो उत्पन्न हुई थी और जनिसे मेरी पूर्ण क्षमता तक मेरे शैक्षणिक प्रदर्शन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। मैं सच्ची आशा रखता हूँ कि आप मेरे केस पर विचार करेंगे तथा मुझे (आपकी ईच्छानुसार क्या होना चाहिये) की अनुमति देंगे।

सादर,

आपका नाम

वदियार्थी अधिकारियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिये हमारी वैबसाइट: www.su.rmit.edu.au/student-rights पर जायें।

अतिरिक्त सहायता के लिये, किसी Student Union Front Office में जायें और एक Student Liaison Officer से बात करें;

City Higher Ed: Building 8, Level 3ph: 03 9925 5004

Carlton Campus: Building 57, Level 4ph: 03 9925 4769

Brunswick: Building 514, Level 2ph: 03 9925 9478

Bundoora: Building 204, Level 1ph: 03 9925 7226

अथवा, अपने केस के बारे में वसितुत सूचना student.rights@rmit.edu.au को भेजें

यदि जिरुरत हो तो, एक Student Rights Officer के साथ आपका अपोइंटमेंट तय किया जायेगा।

यह Student Rights Letter Template श्रंखला आपके लिये, RMIT University Student Union (RUSU) Welfare तथा Education Departments तथा Student Rights Officers द्वारा प्रस्तुत की गई।